

2018 त्रिकाल संहिता

एस्ट्रोसेज द्वारा कुंडली-आधारित भविष्यवाणी



AstroSage

World's No. 1 Astrology Portal & App

उज्ज्वल भविष्य के लिए



Pooja Sharma



को समर्पित

"2018 त्रिकाल संहिता" में आप क्या पाएंगे

प्रिय Pooja Sharma

एक बेहतर और अधिक समृद्ध 2018 चुनने के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। हमें आशा है कि "2018 त्रिकाल संहिता" आपके लिए यह साल विशेष बनाने में पूरी तरह सहायक सिद्ध होगी। न केवल यह संहिता आपको विश्वास का सम्बल प्रदान करेगी, बल्कि इसमें आप वर्ष के लिए सटीक भविष्यवाणियाँ और आने वाली समस्याओं के सरल उपाय भी प्राप्त करेंगे।

यह 2018 त्रिकाल संहिता वैदिक ज्योतिष के प्राचीन सिद्धान्तों पर आधारित है। आदिम युग के ऋषियों ने अतिचेतन समाधि की अवस्था में इस विज्ञान को खोज निकाला था जिसके माध्यम से सभी मानवीय दुःखों से पार पाया जा सकता है और अन्तस् में छुपी क्षमताओं को प्रकट किया जा सकता है। उसी वैदिक विज्ञान का उपयोग करके हमने 2018 त्रिकाल संहिता का निर्माण किया है, जिससे आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और वर्ष 2018 में उनका पूरा उपयोग ठीक तरह से कर सकें।

वर्ष में ब्रह्माण्डीय ऊर्जाओं का प्रवाह सतत बदलता रहता है, इसलिए यहाँ आप पाएंगे कि 2018 के विभिन्न भागों में सहायक व कठिन परिस्थितियाँ किस तरह आकार लेंगी। साथ ही आप जानेंगे कि इस साल आपको क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं और किन उपायों के माध्यम से आप समस्याओं से बचकर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम आपकी कुण्डली में इस वर्ष बन रहे राजयोग और अन्य विशेष योगों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे।

पूरी 2018 त्रिकाल संहिता का सार देने के लिए हमने एक विशिष्ट सूचकांक भी तैयार किया है, जो आपको साल की शक्ति बताएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो साल की जितनी अधिक शक्ति होगी, आप उतनी ही सरलता से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे और इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे।

हम मानते हैं कि आप खास हैं और इसीलिए 2018 त्रिकाल संहिता में हम आपको ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण, सटीक भविष्यवाणियाँ और आसान उपाय देंगे, जो खास तौर पर आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। हम आशा करते हैं कि इस संहिता की सहायता से 2018 में आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, संतोष, प्रसन्नता और मानसिक शान्ति पाएंगे। हमारे साथ इस विशेष यात्रा में आपका स्वागत है, जो वर्ष 2018 में निश्चय ही हर्ष और समृद्धि की यात्रा सिद्ध होगी।

साभार,

पुनीत पाण्डे

पुनीत पाण्डे

संस्थापक, एस्ट्रोसेज.कॉम

2018 के लिए महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिन्दु

अनुकूल बिन्दु

- भाग्यांक: 5
- शुभ अंक: 2, 7, 9
- अशुभ अंक: 4, 8
- शुभ वर्ष: 14,23,32,41,50
- भाग्यशाली दिन: गुरु, रवि, मंगल
- शुभ ग्रह: गुरु, रवि, मंगल
- मित्र राशियां: कर्क सिंह धनु
- शुभ लग्न: कर्क तुला धनु कुम्भ
- भाग्यशाली धातु: तांबा
- भाग्यशाली रत्न: लाल मूंगा

प्रतिकूल बिन्दु

- दिन: रवि
- करण: बव
- लग्न: मेष
- माह: कार्तिक
- नक्षत्र: मघा
- प्रहर: 1
- राशि: मेश
- तिथि: 1, 6, 11
- योग: विषकुम्भ
- ग्रह: शुक

वर्ष 2018 के लिए विशिष्ट उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपायों के माध्यम से हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने साथ भिन्न-भिन्न मौके और कठिनाइयाँ लेकर आता है। यह वर्ष भी इस दृष्टिकोण से खास है। हम यहाँ इस साल के लिए ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपको बाधाओं से बचाने में सहायक होगा और भाग्य में बढ़ोत्तरी करेगा। यह उपाय पूरे वर्ष किया जा सकता है। आपके लिए पूरे वर्ष किया जाने वाला उपाय है:

इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें : ॐ नमः शिवाय

वर्ष 2018 के लिए विशेष

यह वर्ष अपने भीतर कई परिवर्तनों को समेटे हुए हैदृजहाँ कुछ बदलाव सुखद हैं, वहीं कुछ उतने मनोनुकूल नहीं हैं। एक तरफ बहुत-सी उपलब्धियाँ आपके कदम चूमेंगी, तो दूसरी ओर आपको कुछ कसौटियों पर भी कसा जाएगा। ऐसे में हम आपका ध्यान कुछ मूलभूत बातों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से आप इस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं और कठिनाइयों पर लगाम लगा सकते हैं। देखने में भले ही ये बातें सतसैया के दोहों की तरह देखने में छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा और दूरगामी है। आइए, देखते हैं इस साल आपको किन विशेष बातों को याद रखना चाहिए—

क्या करें

- माता के पूर्ण देखभाल करें।
- अपना आत्मा सम्मान बनाये रखें।

क्या न करें

- मन लगाकर विद्या अध्ययन करें।
- अपने इष्ट देव की यथा संभव पूजा अर्चना करें।

वर्ष 2018 का विस्तृत विश्लेषण

आपके जीवन को प्रभावित करने वाली सूक्ष्म शक्तियाँ वर्ष भर परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए वर्ष का विस्तृत विश्लेषण जीवन के अलग-अलग पहलुओं में भिन्न-भिन्न परिणामों को दर्शाता है। हम पहले ही संक्षेप में देख चुके हैं कि यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आइए, अब ऊर्जाओं में आने वाले बदलावों के फलस्वरूप वर्ष के विभिन्न हिस्सों पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से देखते हैं

जनवरी 01, 2018 – फरवरी 22, 2018

आर्थिक जीवन

यह अवधि आर्थिक जीवन के लिए थोड़ी नाजुक है, लिहाजा इस समय ऐसे कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़े। आपके पास धन का आगमन होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च में भी वृद्धि होगी। धन की बचत में आपको दिक्कत आएगी। इस समय आप अपने किसी खास के आर्थिक मदद भी ले सकते हैं।

करियर

करियर में आपको खड़े मीठे अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आपकी कोई लापरवाही आपको

जॉबलेस बना सकती है। इसलिए यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अनुशासित कर्मी बनें। किसी सहकर्मी से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

पारिवारिक जीवन

आप परिवार के छोटे मोटे मुद्दों को नजर अंदाज करेंगे। संतान के द्वारा आपको खुशी मिलेगी। भाई-बहनों की सेहत में कमी देखी जा सकती है। पिताजी की ओर से आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। माता जी की सेहत दुरुस्त रहेगी। यदि परिवार में किसी तरह का विवाद चल रहा है तो उसे बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करें।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय है। आप अपने साथी के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो दांपत्य जीवन में कुछ कष्ट आ सकते हैं। इन पर विशेष रूप से ध्यान दें अन्यथा अपने जीवनसाथी से आपका मनमुटाव हो सकता है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। इस समय आपको शारीरिक रूप से दर्द की शिकायत रह सकती है। आपको जोड़ों अथवा पंडलियों में दर्द, थकान, सिरदर्द आदि की समस्याएँ रह सकती हैं। अस्वस्थ होने डॉक्टर से उपचार कराएं। किसी तरह की लापरवाही बरतना समस्या कारक भी हो सकती है।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- व्यापारिक साझेदारी में किसी को धोखा ना दें ।
- जीवन साथी के प्रति उदासीनता का त्याग करें।

क्या न करें

- मांस, मछली अंडा आदि का सेवन ना करें।
- जीवनसाथी के अतिरिक्त किसी अन्य से अंतरंग संबंध ना बनाएं।

उपाय

- प्रतिदिन भोजन करते समय थाली में से एक हिस्सा गाय को एक हिस्सा कुत्ते को एवं एक हिस्सा कौवे को खिलाएं।
- लोहे की कटोरी में तेल का छाया पात्र दान करें।

फरवरी 22, 2018 – अप्रैल 15, 2018

आर्थिक जीवन

बुध का चतुर्थ भाव में स्थित रहना यह दर्शाता है कि, इस अवधि में आपके अंदर व्यावसायिक गुणों का विकास होगा। इसके फलस्वरूप बिजनेस से जुड़े कार्यों में आपको सफलता और उन्नति मिलेगी। इस अवधि में आप भौतिक सुख—सुविधाओं पर अधिक धन खर्च करेंगे। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने की संभावना है। इस अवधि में आपके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी।

करियर

आपकी रुचि गीत, संगीत और नृत्य जैसे कार्यों में बढ़ सकती है। यदि आप लेखन के क्षेत्र से हैं, तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपकी मुलाकात समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से होगी और उनकी सलाह व मार्गदर्शन से आपको लाभ होगा। इस अवधि में आपको आलस्य की प्रवृत्ति से बचना होगा और अपनी बातों पर कायम रहना होगा।

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा। माता—पिता से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और उनकी मदद से आपको लाभ होगा। मित्रों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ आप मधुर पल व्यतीत करेंगे। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलेगा। वे पढ़ाई—लिखाई, नौकरी और बिजनेस आदि कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति होगी।

स्वास्थ्य

आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आप अपने अंदर एक नई ताजगी का अनुभव करेंगे। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप प्रसन्न दिखाई देंगे। बेहतर स्वास्थ्य का असर आपके काम पर देखने को भी मिलेगा। परिणामस्वरूप आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करने की आदत डालें।
- पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय खेलकूद, मनोरंजन तथा अन्य क्रिया कलाओं के लिए भी निकालें।

क्या न करें

- बार—बार घर बदलने की आदत से मुक्ति पाएं।
- अपनी पारिवारिक और निजी जंदगी को ना मिलाएं दोनों को अलग रखें।

उपाय

- साबुत मूंग की दाल का दान करें।
- मूंग की दाल के हलवे में हरी इलायची डालकर दान करें।

अप्रैल 15, 2018 – मई 06, 2018

आर्थिक जीवन

आर्थिक क्षेत्र में आपको मिलेजुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सोच-समझदारी और बाजार का रुझान देखकर ही निवेश करें, तभी आपको इसमें फायदा होगा। जुआ एवं सट्टा से दूरी बनाएं और जोखिम भरे फैसले न लें। अपने अनावश्यक खर्च पर भी पाबंदी लगाएं।

करियर

कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। नौकरी में सीनियर्स के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे। नए-नए विचार आपकी कार्यशैली में चार चाँद लगाएंगे। करियर में अच्छे कार्य की बदौलत आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय की यात्रा से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

पारिवारिक जीवन

परिवार में सुख-शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। घर में कोई मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। इस समय आपको अपने परिवार से विशेष लगाव रहेगा परंतु पिताजी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। बेहतर होगा कि आप पिताजी का सम्मान करें और सफलता के लिए उनकी बातों का अनुसरण करें।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जीवनसाथी को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। उनकी वजह से समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। लव लाइफ में अनुकूल परिस्थितियाँ रहेंगी। पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिल सकता है।

स्वास्थ्य

इस अवधि में आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के कारण आप मानसिक रूप से भी फिट नजर आएंगे और इसका असर आपकी कार्यशैली में देखने को मिलेगा। खुद को फिट बनाए रखने के लिए प्रातः योग आसन करें और नशीले पदार्थों से दूर रहें।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- समय-समय पर तीर्थ यात्रा करते रहे।
- अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखें और उनसे अपने संबंध अच्छे रखें।

क्या न करें

- अपने विचारों के प्रति अत्यधिक कट्टर न बने।
- भाई बहनों के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें।

उपाय

- केतु बीज मंत्र का जाप करें।
- धुएं जैसे रंग का वस्त्र दान करें।

मई 06, 2018 – जुलाई 06, 2018

आर्थिक जीवन

इस अवधि में आर्थिक जीवन सामान्य रहेगा। आप निजी प्रयासों से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको धन लाभ का मार्ग सुगम होगा। यदि आप धन की बचत के लिए गंभीर हैं तो आर्थिक प्रबंधन करें। छोटी-छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी।

करियर

यदि नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर हालात सुधरेंगे और आपके काम को पहचान मिलेगी। इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा और इसके परिणामस्वरूप आपको अपने काम में सफलता हासिल होगी। छोटी यात्राएं सुखद एवम सफल रहेंगी। लोगों से आपके सम्पर्क बढ़ेंगे।

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक सुख कायम रहेगा और भाई बहन भी खुशहाल व सुखी रहेंगे। माता-पिता से भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको सफलता मिलेगी। इस समय अवधि में आपके पिता को बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। ये यात्राएं कामकाज या किसी अन्य कारण से हो सकती है।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

इस अवधि में आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपके जीवनसाथी को विदेश भ्रमण का अवसर मिल सकता है। यदि प्रेम-प्रसंग चल रहा है तो प्रियतम की ओर से अपार स्नेह मिलेगा। इस दौरान मर्यादित आचरण बनाये रखें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपके रिश्ते में किसी तरह की दरार पड़े।

स्वास्थ्य

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। हालांकि छोटे मोटे रोगों के उभरने की संभावना रह सकती है। पेट से संबंधित विकार होने के आसार हैं। इस दौरान अपने खानपान पर ध्यान दें। अस्वस्थ होने पर ज्यादा तनाव नहीं लें बल्कि डॉक्टरी परामर्श के बाद संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- भाई— बहिनों से अपने सम्बन्ध मजबूत करें।
- अपनी किसी भी रुचि को आगे बढ़ाएं।

क्या न करें

- अत्यधिक वासनात्मक विचारों से दूर रहें।
- अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कष्ट ना दें।

उपाय

- प्रतिदिन गौ—ग्रास निकालें।
- जायफल से औषधि स्नान करें।

जुलाई 06, 2018 – जुलाई 24, 2018

आर्थिक जीवन

इस अवधि में आप आय के साथ—साथ बचत पर अधिक ध्यान देंगे। आप नियमित रूप से होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा बचत के रूप में जमा करेंगे। इस अवधि में आपको सोने—चांदी के व्यवसाय से लाभ मिलेगा। यदि आप ज्वैलरी का कार्य करते हैं तो आपको अचानक कोई बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में की जाने वाली यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।

करियर

इस अवधि में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। हालांकि इसके फलस्वरूप मिलने वाला परिणाम अत्यंत सुखदायी होगा। आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति का बुरे व अनैतिक कार्यों की ओर रुझान बढ़ता है, अतः इस अवधि में किसी भी गलत कार्य में संलिप्त होने से बचें वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।

पारिवारिक जीवन

माता—पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होने से आपकी चंताएं बढ़ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ होने पर डॉक्टरी परामर्श लें। सूर्य की यह स्थिति भाइयों के बीच विवाद का कारण भी बन सकती है। ऐसे में परिवार में भाइयों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। चूंकि सूर्य पिता पिता का कारक होता है और सूर्य के चतुर्थ भाव में स्थित होने से यह पिता के साथ मनमुटाव का कारण बनता है, अतः पिता के साथ मधुर संबंध बनाये रखने की कोशिश करें।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक और प्रेम जीवन के लिए कुछ कष्टकारी समय रहेगा। रिश्ते में किसी तरह की दरार न आए, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। जीवनसाथी से बहसबाजी न करें और उन पर किसी तरह का दबाव न डालें। प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखें। प्रियतम को उसके हिस्से का समय दें।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। आपके अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है। मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। तनाव से बचने के लिए योग व ध्यान लगाएं। अपने खानपान पर भी विशेष ध्यान दें। आपको दाद, खाज-खुजली जैसे चर्म रोग हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार कराएं।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- अपनी माताजी की सेहत की देखभाल करें।
- अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति पूरे मन से करें।

क्या न करें

- परिवार में स्वयं को ऊपर सिद्ध करने का प्रयास ना करें।
- अपने परिवार में मुसाफिरों की तरह व्यवहार ना करें और परिवार वालों को समय दें।

उपाय

- अपने दैनिक भोजन में केसर का प्रयोग करें।
- आकड़े की समिधा से हवन करें।

अगस्त 24, 2018 – अक्टूबर 17, 2018

आर्थिक जीवन

आर्थिक क्षेत्र में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आपके खर्च में वृद्धि होगी। जबकि आमदनी खर्चों के मुकाबल कम रहेगी, इसलिए आपको आर्थिक नियोजन करना होगा अन्यथा आपके सामने आर्थिक संकट की समस्या आ सकती है। आप किसी कर्ज ले सकते हैं। आर्थिक फैसले लेने से बचें।

करियर

इस समय आपको नई जॉब मिलने की संभावना है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि यह अवधि आपके करियर के लिए ठीक नहीं है। बिना सोचे-समझे कोई भी कदम न उठाएं, अन्यथा आपको जीवन भर उसका पछतावा रह सकता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिल सकती है।

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा पेचीदा रह सकता है। परिजनों से संबंध कटु हो सकते हैं। अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर आप इस समय परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके परिवार में दरार पैदा करना चाहते हैं। दूसरों की बातों में आकर परिजनों से लड़ाई-झगड़ा न करें।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

जीवनसाथी को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है अथवा उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर से ऐसी कोई भी बात न कहें जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। प्रेम जीवन में प्रियतम के लिए समय निकालें और उनकी इच्छाओं को पूरा करें।

स्वास्थ्य

इस अवधि में आपको यात्रा के दौरान थकान महसूस होगी। नेत्र संबंधी पीड़ा होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बुखार, जुकाम, खांसी एवं अनिद्रा जैसे रोग भी सकते हैं। इस समय अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान दें। फास्ट फूड से और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- जीवन साथी के प्रति वफादार रहें।
- धन का सदुपयोग करें और व्यर्थ ना खर्चें।

क्या न करें

- कानून के विरुद्ध जाकर कोई कार्य न करें।
- किसी से कोई चीज मुफ्त में ना लें और ना ही दे।

उपाय

- घास लेकर उसे जमीन पर रखकर किसी वजनी वस्तु से दबा दें।
- चलते हुए पानी में नारियल बहाएं।

अक्टूबर 17, 2018 – दिसम्बर 05, 2018

आर्थिक जीवन

आपके प्रयास रंग लाएंगे और आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। इस अवधि में काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं आपको धन लाभ दिलाएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस अवधि में आर्थिक प्रबंधन के लिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

करियर

इस अवधि में आपके क्रियाकलाप प्रशंसा के हकदार होंगे और आप प्रचुर सम्मान प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढा चढा रहेगा। आपका सामाजिक क्षेत्र बढेगा। छोटी यात्राएं सफलदायक रहेंगी। सहयोगियों और भागीदारों से खूब पटेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस अवधि में पदोन्नति की प्रबल संभावना है। इसके अलावा व्यवसाय में भी विस्तार हो सकता है।

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक उत्थान के लिये आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगे। माता-पिता से भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपके भाई-बहन भी समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय में आपको कई पारिवारिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आपके जीवनसाथी को विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यदि प्रेम-प्रसंग चल रहा है तो प्रियतम की ओर से अपार प्यार मिलेगा। ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपके रिश्ते में किसी तरह की दरार पड़े।

स्वास्थ्य

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। हालांकि छोटे मोटे रोगों के उभरने की संभावना रह सकती है। पेट से संबंधित विकार होने के आसार हैं। इस दौरान अपने खानपान पर ध्यान दें। अस्वस्थ होने पर ज्यादा तनाव नहीं लें बल्कि डॉक्टरी परामर्श के बाद संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा करते रहे।
- भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखें।

क्या न करें

- आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग करें।
- एक साथ कई सारे कामों को हाथ में ना लें।

उपाय

- बृहस्पतिवार को पीले चावल बना कर बच्चों में बांटे।
- किसी गरीब विद्यार्थी को पुस्तक दान करें।

दिसम्बर 05, 2018 – दिसम्बर 31, 2018

आर्थिक जीवन

इस समय आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में चुनौतियों के कारण आप मानसिक रूप से भी परेशान दिखाई देंगे। इस दौरान जोखिम उठाने वाली प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश लगाएं अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की गुंजाइश है। आपको पैसे उधार लेने की नौबत भी आ सकती है।

करियर

इस समय करियर की गाड़ी भी मंद गति से दौड़ेगी। आपकी सृजनात्मक क्षमता का ह्रास होगा, जिससे आपके पास नए विचार नहीं आएंगे। निर्णय लेते समय भी आप थोड़े असहज रह सकते हैं। झूठी आशाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत होना पड़ेगा।

पारिवारिक जीवन

इस समय संतान की सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी गौर करें। मित्र अथवा सहयोगियों से आपका मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन में क्लेश पैदा होने की स्थिति बन रही है। जमीन-जायदाद अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच झगड़ा होने के आसार हैं।

वैवाहिक और प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अपने लव पार्टनर को यह अहसास कराएं कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं अन्यथा विवाद होने की स्थिति में आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय रहेगा। जीवनसाथी के द्वारा आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है।

स्वास्थ्य

इस अवधि में आप शारीरिक रूप से कमजोर रह सकते हैं। आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। इसका विपरीत असर आपके चेहरे पर पड़ेगा। इस समय आपके कंधे झुके हुए रह सकते हैं। काम में आपको थकान का अनुभव होगा और आपकी कार्य क्षमता में कमी होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

इस दौरान याद रखने योग्य बातें

क्या करें

- जिसे भी अपना माने उससे अपने मन की बात जरूर साझा करें।
- प्रेम संबंधों में अंतरंगता लाएं।

क्या न करें

- किसी के प्रति और रूखा व्यवहार ना करें और उनकी भावनाओं को आदर दे।
- संतान के प्रति अत्यधिक सख्त व्यवहार ना करें।

उपाय

- शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सायं काल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- श्री राम भक्त हनुमान की उपासना करें और उन्हें संदूर चढ़ाएं।

2018 में बन रहे विशेष योग

अब देखते हैं कि इस वर्ष आपकी कुण्डली में कौन-कौन से राज योग और विशेष योग बन रहे हैं। ये योग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं और आगे बढ़कर सफलता व समृद्धि प्राप्त करने में मददगार साबित होते हैं। इस वर्ष निम्नांकित राजयोगों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा—

1. गज-केसरी योग

इस साल इस योग के प्रभाव से आप दयालु, परोपकारी, धनवान तथा सम्माननीय होंगे।

2. उभयचरी योग

इस वर्ष इस योग के प्रभाव से आप भाग्यवान तथा ज्ञानवान होंगे।


3. पाराशरी राज योग:

इस योग के प्रभाव से इस साल आपके जीवन में समृद्धि आएगी।

वर्ष 2018 की शक्ति

जीवन के विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से हर वर्ष अपने आप में भिन्न होता है। हम अब तक इन भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बात कर चुके हैं। लेकिन जब हम इन विभिन्न आयामों को सम्पूर्णता से देखते हैं तो हमें बड़ी तस्वीर नजर आती है, जिसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। साथ ही यह दृष्टिकोण हमें गहरी अन्तर्दृष्टि देता है और बेहतर समझ प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हमने विशेष सूचकांक बनाया है, जो इन सारे विश्लेषणों का सार लेकर दर्शाता है कि यह वर्ष आपके लिए कितना सफल और संतोषजनक होने वाला है। आइए, देखते हैं यह सूचकांक क्या कहता है

वर्ष 2018 की शक्ति— 65%




हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत दी गई जानकारी और भविष्यवाणी के आधार पर आप वर्ष 2018 के अंतर्गत जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे और शांति पूर्वक अपने जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे। यदि आप हमारे ज्योतिषी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर

हमारे ज्योतिषियों से बात कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।

॥ वर्षफल विवरण ॥

जन्म		वर्ष
Female	लिंग	Female
23/8/1978	जन्म दिनांक	23/8/2017
23:53:18	जन्म समय	23:50:48
बुधवार	जन्म दिन	बुधवार
Delhi	जन्म स्थान	Delhi
28	अक्षांश	28
77	रेखांश	77
00 : 21 : 07	स्थानीय समय संशोधन	00 : 21 : 07
00 : 00 : 00	युद्ध कालिक संशोधन	00 : 00 : 00
23 : 32 : 10	स्थानीय औसत समय	23 : 29 : 39
05 : 54 : 14	सूर्योदय	05 : 54 : 36
18 : 53 : 28	सूर्यास्त	18 : 52 : 55
वृषभ	लग्न	वृषभ
शुक्र	लग्नस्वामी	शुक्र
मेष	राशि	कन्या
मंगल	राशि स्वामी	बुध
भरणी	नक्षत्र	उ०फाल्गुनी
शुक्र	नक्षत्र स्वामी	सूर्य
वृि	योग	सि
वणिज	करण	तैतिल
कन्या	सूर्य राशि (पाश्चात्य)	कन्या
023-33-30	अयनांश	024-06-11
लाहिरी	अयनांश नाम	लाहिरी

ताजिक वर्षफल कुण्डली



॥ वर्षफल विवरण ॥

जन्म		वर्ष
Female	लिंग	Female
23 / 8 / 1978	जन्म दिनांक	24 / 8 / 2018
23:53:18	जन्म समय	5:59:58
बुधवार	जन्म दिन	शुक्रवार
Delhi	जन्म स्थान	Delhi
28	अक्षांश	28
77	रेखांश	77
00 : 21 : 07	स्थानीय समय संशोधन	00 : 21 : 07
00 : 00 : 00	युद्ध कालिक संशोधन	00 : 00 : 00
23 : 32 : 10	स्थानीय औसत समय	05 : 38 : 49
05 : 54 : 14	सूर्योदय	05 : 55 : 00
18 : 53 : 28	सूर्यास्त	18 : 52 : 08
वृषभ	लग्न	सिंह
शुक्र	लग्नस्वामी	सूर्य
मेष	राशि	मकर
मंगल	राशि स्वामी	शनि
भरणी	नक्षत्र	उ०षाढा
शुक्र	नक्षत्र स्वामी	सूर्य
वृि	योग	सौभाग्य
वणिज	करण	तैतिल
कन्या	सूर्य राशि (पाश्चात्य)	कन्या
023-33-30	अयनांश	024-07-01
लाहिरी	अयनांश नाम	लाहिरी

ताजिक वर्षफल कुण्डली

